

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 633]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2014—पौष 8, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1790.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, रायसेन, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता | |
|---------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में | शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगरपालिका परिषद्, रायसेन, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | जमना सेन | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | पवन शाक्या | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | मो. इमरान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | संतोष यादव (पन्नी) | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | क्रांति संतोष कुशवाह | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | राधेश्याम सेन | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | भारती भगवान दास लोहट | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|---|--------|-----|---------|-------------------------|-----------------------|
| 8 | नगरपालिका परिषद्, रायसेन, जिला रायसेन. | पार्षद | 7 | सात | संगीता सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | श्रीमति फरजाना असलम खां | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | निर्मला ब्रजेश राय | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | संतोष राठौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | भूरी बाई कुन्जीलाल | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | सुखेन्द्र सिंह बघेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | गीता धनीराम विश्वकर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | नारायण सिंह कुशवाह | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | नरेश छुगगानी | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | | पार्षद | 16 | सोलह | शाहिदा बेगम | निर्दलीय |
| 18 | | पार्षद | 17 | सत्रह | सलमा सिद्दीकी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 19 | | पार्षद | 18 | अट्ठारह | उपेन्द्र सिंह पवार | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1791.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

| क्रमांक | नगरपालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | नन्हीबाई मलखानसिंह जाट | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | अकरम हुसैन (पटेल) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | रईसा पत्नि रमजान अली | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | प्रीति राजेश घोषी | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | राजेंद्र सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | साबिया वी मो. शाकिर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|--------|-----|---------|----------------------------|-----------------------|
| 7 | नगरपालिका परिषद्, बेगमगंज, जिला रायसेन. | पार्षद | 6 | छः | साकिर | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | परषोत्तम (परसू भैया) | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | अफरोज (इरशाद मो. बाबू भाई) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | मुन्ना अली दाना | समाजवादी पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | कमल साहू | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | गुलाब चंद रजक | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | स्वाति संदीप लोधी | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | प्रीति/ नीरज | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | रवि नारायण रावत | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | सत्यवती कुंवर सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| 17 | | पार्षद | 16 | सोलह | गुड्डी बाई लोधी | भारतीय जनता पार्टी |
| 18 | | पार्षद | 17 | सत्रह | श्रीमति पानबाई | भारतीय जनता पार्टी |
| 19 | | पार्षद | 18 | अट्ठारह | माया ओंकार यादव | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1792.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सिलवानी, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, सिलवानी, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | मुकेश राय | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | संतोष (उर्फ पप्पू) आदिवासी आत्मज तुलाराम आदिवासी | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | तस्लीम बी अयाज खाँ | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | कमलेश जाटव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | रईस अहमद उर्फ लल्लू भाई | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | साहरा बी रहिमउददीन | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|---------|----------------------------|-----------------------|
| 7 | नगर परिषद्, सिलवानी, जिला रायसेन. | पार्षद | 6 | छः | सरूद बेग | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | सन्नो बी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | इमरान खां | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | नीरज कुमार उर्फ पप्पू नेमा | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | नाजमा वी (सलमान) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | कमलेश सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | सन्जीव कुमार जैन | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | विमला (सुखनंदन सोनी) | निर्दलीय |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | लीला देवी (रमेश चंद साहू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | 'रजनी रघु' | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1793.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | श्रीमति हरप्रीत कौर (बिटटू) रानी | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | विजेन्द्र गुर्जर | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | दीपेश परमार (दीपू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | आशा गोंदिया | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | हरपाल सिंह राजपूत | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | सना आमीर ममनून (डिस्क वाले) | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शैलेन्द्र सिंह नागर | निर्दलीय |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | बृजेश इरपाचे | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | मिथलेश उमेश नागर | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--|--------|-----|---------|--|-----------------------|
| 10 | नगर परिषद्, ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन. | पार्षद | 9 | नौ | श्रीमति कुसुम गिरी पत्नि घनश्याम गिरी. | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | मुकेश कुमार कहार | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे | भारतीय जनता पार्टी |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | श्रीमती उषा पदमसिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | द्रोपती श्रीवास्तव | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | बाल कृष्ण नरवरिया (बालू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | श्रीमति स्वाती पामेश यादव | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1794.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, उदयपुरा, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, उदयपुरा, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | केशवसिंह रघुवंशी (भूरा पटेल) | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | सरोजबाई रमेश कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | पूजा अभिषेक श्रीवास्तव | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | लीलाबाई विजयसिंह धाकड़ | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | दिलीप लोधी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | प्रकाश कुमार शर्मा | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शिबूलाल साहू | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | विस्मिल्ला बी/ बज्जू भाई | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | हरीनारायण (हरी बाबा) | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | हरीसिंह खत्री | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | श्रीमति रंजना नरवरिया | निर्दलीय |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|---------|---------------------------------|-----------------------|
| 12 | नगर परिषद्, उदयपुरा, जिला रायसेन. | पार्षद | 11 | ग्यारह | सीमा सुनील राय | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | चंद्र शेखर रघुवंशी (गब्बर भाई) | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | अनिल सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | पिंकी (ववलू कहार पान वाले) | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | संजय रघुवंशी (पुरुषोत्तम चच्चा) | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1795—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, गौरतगंज, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|--------------------------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, गौरतगंज, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | उत्तम चंद्र जैन | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | 'श्रीमति राधा मुकेश ठाकुर' | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | "आशीष कुमार" | निर्दलीय |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | 'गोपीलाल' | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | 'फईम उद्दीन' | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | श्रीमति सविता गोपाल कुशवाह | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | "सरोज बाई" | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | "मो. अकरम कुरेशी" | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | "शवाना परवेज कुरेशी" | निर्दलीय |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | "भागवती रामभरोसे" | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | "प्रियंका दिनेश व्यास" | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | "मुकेश जैन" | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|---------|-------------------------------------|-----------------------|
| 13 | नगर परिषद्, गैरतगंज, जिला रायसेन. | पार्षद | 12 | बारह | “श्रीमति डाली विंधेश कुमार अहिरवार” | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | ‘श्याम लाल’ | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | ‘कन्हैयालाल मालवीय’ | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | “जितेन्द्र भारत सिंह ठाकुर” | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1796—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बाड़ी, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में | शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, बाड़ी, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | जागेश्वर बैरागी | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | मीना कुशवाहा | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | नशरीन | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | कन्हैया लाल पन्द्राम | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | समन मंसूरी | निर्दलीय |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | हीरालाल शिल्पी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | अनिल कुमार सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | दीपक सिंह चौहान | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | राकेश कुमार सोनी | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | ललिता ब्रजमोहन गौर | निर्दलीय |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | भूरीबाई अहिरवार | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | श्रीमति रीना सीताराम चौहान | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|-----------------------------------|--------|-----|---------|----------------------------|--------------------|
| 13 | नगर परिषद्, बाडी, जिला रायसेन. | पार्षद | 12 | बारह | रंजीत गौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | संजय बिदुआ | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह | श्रीमती सुलेखा/ संजीव केवट | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | राकेश नाथ | निर्दलीय |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1797—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में | केवल शब्दों में | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | - | शैलेन्द्र जैन (नीटू भैया) | भारतीय जनता पार्टी |
| 2 | | पार्षद | 1 | एक | दिव्यंति- राजू अरोरा | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | दो | प्रभुदयाल गौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | तीन | राकेश-ग्याप्रसाद गौर | भारतीय जनता पार्टी |
| 5 | | पार्षद | 4 | चार | मोतिलाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | पांच | चंद्र वती | निर्दलीय |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः | शहजाद बी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात | श्रीमती शारदा ब्रजमोहन साहू | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ | जरीना बी पति सै. जावेद अली | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ | दीपक-मिर्धा | भारतीय जनता पार्टी |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस | गुंजावती शोभाराम | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह | शकील | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह | शाजिया (साजिद खान) गुल्लाला | निर्दलीय |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह | कमलेश कुमार कटारे | भारतीय जनता पार्टी |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----|--------------------------------------|--------|-----|---------|-----------------------------|--------------------|
| 15 | नगर परिषद्, गैरतगंज, जिला रायसेन. | पार्षद | 14 | चौदह | गोवर्धन दासवानी (गोधू भैया) | भारतीय जनता पार्टी |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह | सरिता पति मंगल | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1798—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बरेली, जिला रायसेन के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :-

| क्रमांक | नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित | पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद | वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | अंकों में शब्दों में | (6) | (7) |
| 1 | नगर परिषद्, बरेली, जिला रायसेन. | अध्यक्ष | - | गुंजन गिरीश बंटी पालीवाल | निर्दलीय |
| 2 | | पार्षद | 1 | राजेंद्र सिंह राजपूत (राजू) | भारतीय जनता पार्टी |
| 3 | | पार्षद | 2 | गायत्री देवी w/o रामलाल मेहरा | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | | पार्षद | 3 | श्रीमति लक्ष्मी पाल | निर्दलीय |
| 5 | | पार्षद | 4 | कमर बानो "निगार" | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 6 | | पार्षद | 5 | फूल सिंह धाकड | भारतीय जनता पार्टी |
| 7 | | पार्षद | 6 | छः श्रीमति अनीता प्रदीप धाकड | भारतीय जनता पार्टी |
| 8 | | पार्षद | 7 | सात मानसी मुकुंद पाराशर | भारतीय जनता पार्टी |
| 9 | | पार्षद | 8 | आठ शैलेंद्र सी. एल. पटेल | भारतीय जनता पार्टी |
| 10 | | पार्षद | 9 | नौ संजना भगवानदास उपाध्याय | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 11 | | पार्षद | 10 | दस नारायण दास राठी उर्फ नंदु | भारतीय जनता पार्टी |
| 12 | | पार्षद | 11 | ग्यारह हमीद वफाती कुरैशी | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 13 | | पार्षद | 12 | बारह तबस्सुम [मुन्नै भाई] | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 14 | | पार्षद | 13 | तेरह श्रीमति कृष्णा शिवराज सिंह चौहान | भारतीय जनता पार्टी |
| 15 | | पार्षद | 14 | चौदह अमित राय एडवोकेट | इंडियन नेशनल कांग्रेस |
| 16 | | पार्षद | 15 | पन्द्रह विजय राजौरै | इंडियन नेशनल कांग्रेस |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(गिरीश शर्मा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.